

Ref No.: KRBL/SE/2023-24/59 15 September, 2023

The General Manager	The Listing Department		
Department of Corporate Services	National Stock Exchange of India Limited		
BSE Limited	"Exchange Plaza", C-1, Block-G		
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)		
Dalal Street, Mumbai – 400 001	Mumbai-400051		
Scrip Code: <b>530813</b>	Symbol: <b>KRBL</b>		
-	Series: Eq.		

Dear Sir,

Sub: Submission of the Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback Public Announcement") for the Buyback of up to 65,00,000 fully paid-up equity shares of ₹1/- each ("Equity Shares") of KRBL Limited ("Company") at a price of ₹500/- per Equity Share for an aggregate amount of ₹325 crores ("Buyback Size") through the tender offer process pursuant to the SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") (the "Buyback").

This is in regard to the captioned Buyback. As required under the Buyback Regulations, we are pleased to submit herewith a copy of the Post Buyback Public Announcement dated 14 September, 2023 for your reference and dissemination.

The Post Buyback Public Announcement was published on 15 September, 2023 in the following newspapers:

Publication Language		Editions
Jansatta Hindi		Delhi, Kolkata, Chandigarh, Lucknow
Financial Express	English	Chandigarh, Pune, Lucknow, Kolkata, Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad, Ahmedabad, Mumbai, Delhi
Financial Express	Gujarati	Ahmedabad


This is for your kind information and record please.

Thanking you, For KRBL Limited

Jyoti Verma Company Secretary FCS-7210

**Encl: As Above** 

**FINANCIAL EXPRESS** 



# KRBL LIMITED

CIN: L01111DL1993PLC052845 Registered Office: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 006; Phone: 011-23968328; Corporate Office: C-32, 5th & 6th Floor, Sector-62, Noida, U.P.-201301; Phone: 120-4060300; E-mail: investor@krblindia.com; Website: www.krblrice.com

Contact Person: Ms. Jyoti Verma, Company Secretary & Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KRBL LIMITED

This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24 (vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 11, 2023, published on August 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated August 26, 2023 ("Letter of Offer"). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK
- 1.1 KRBL Limited ("Company") had announced the Buyback of upto 65,00,000 (Sixty Five lakh) fully paid-up equity shares of ₹1/- (Rupee One only) each ("Equity Shares"), representing approximately 2.76% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company as at March 31, 2023, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. Friday, August 25, 2023 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹500/- (Rupees Five Hundred only) per Equity Share ("Buyback Price") for an amount aggregating up to ₹325 crores (Rupees Three Hundred and Twenty Five Crores only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 6.94% and 6.96% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited financial statements of the Company as on March 31, 2023, on a standalone and consolidated basis, respectively.
- 1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular SEBI/ HO/CFD/DCR-III/CIR/P/202I/615 dated August 13, 2021, and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023, and/or such other circulars or notifications or amendments as were applicable, issued by SEBI.
- 1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Thursday, August 31, 2023 and closed on Wednesday, September 6, 2023.
- 2. DETAILS OF BUYBACK
- 2.1 65,00,000 (Sixty Five lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹500/- (Rupees Five Hundred only) per Equity Share.
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹325 crores (Rupees Three Hundred and Twenty Five Crores only) excluding Transaction Costs. 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Alankit Assignments Limited ("Registrar"), considered 34,149 valid bids for 3,40,34,710 (Three Crore Forty Lakh
- Thirty Four Thousand Seven Hundred and Ten only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 5.24 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	9,75,000	31,347	20,73,765	212.69
2	General Category for all other Equity Shareholders	55,25,000	2,802	3,19,60,945	578.48
);	Total	65,00,000	34,149	3,40,34,710	523.61

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was dispatched by the Registrar through email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company and the Depositories) on September 13, 2023. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on September 14, 2023.
- 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on September 13, 2023. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on September 13, 2023. The unaccepted Equity Shares were returned to the respective Seller Member / custodians by the Clearing Corporation on September 13, 2023. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback.
- 2.7 The extinguishment of 65,00,000 (Sixty Five lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before
- 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1 The capital structure of the Company, pre-Buyback (i.e., as on the Record Date) and post-Buyback, is as under:

Sr.	Particulars	Pre Buyback	73	Post Buyback*		
No.		No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Crore)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Crore)	
1.	Authorised Share Capital	30,00,00,000 Equity Shares of ₹1/- each	30.00	30,00,00,000 Equity Shares of ₹1/- each	30.00	
2.	Issued and Subscribed Share Capital	23,62,44,892 issued and subscribed Equity Shares of ₹1/- each	23.62	22,97,44,892 issued and subscribed Equity Shares of ₹1/- each	22.97	
3.	Fully Paid-Up Share Capital	23,53,89,892 fully paid-up Equity Shares of ₹1/- each	23.54	22,88,89,892 fully paid-up Equity Shares of ₹1/- each	22.89	

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares

3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)*
1.	ANIL MITTAL FAMILY TRUST	10,65,702	16.40	0.47
2.	ARUN KUMAR GUPTA FAMILY TRUST	10,34,994	15.92	0.45
3.	ANOOP KUMAR GUPTA FAMILY TRUST	9,52,645	14.66	0.42
4.	ANIL KUMAR GOEL	4,40,248	6.77	0.19
5.	SOM NATH AGGARWAL	2,31,977	3.57	0.10
6.	SEEMA GOEL	2,07,366	3.19	0.09
7.	ANOOP KUMAR GUPTA HUF	1,79,005	2.75	0.08
8.	ARUN KUMAR GUPTA HUF	1,18,925	1.83	0.05
9.	ANIL KUMAR MITTAL HUF	88,275	1.36	0.04
10.	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	77,085	1.19	0.03

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, (i.e., as on the Record Date i.e. August 25, 2023) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre B	uyback	Post Buyback		
	Number of Shares	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*	
Promoters and Promoter Group	14,11,81,796	59.98	13,77,19,838	60.17	
Foreign Investors (OCBs/ FIls/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	3,41,89,894	14.52			
Indian Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	1,46,38,445	6.22	9,11,70,054 39.83		
Public including other Bodies Corporate	4,53,79,757	19.28			
Total	23,53,89,892	100.00	22,88,89,892	100.00	

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares. MANAGER TO THE BUYBACK

# **Elara**Capital

Elara Capital (India) Private Limited

One International Center, Tower 3, 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West, Mumbai - 400013 Address: +91 22 6164 8599

+91 22 6164 8589 Fax: Contact Person: Ms. Astha Daga krbl.buyback@elaracapital.com Email:

www.elaracapital.com Website: SEBI Registration Number: Validity Period: Permanent U65993MH2006PTC164708

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. For and on behalf of the Board of Directors of

KRBL Limited

l	Sd/-	Sd/-	Sd/-		
	Anil Kumar Mittal	Anoop Kumar Gupta	Jyoti Verma		
	Chairman & Managing Director	Joint Managing Director	Company Secretary & Compliance Officer  M. No.: F-7210		
	DIN: 00030100	DIN: 00030160	M. No.: F-7210		

Date: September 14, 2023 Place: Noida, Uttar Pradesh

## ...continued from previous page.

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹735 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 187.67375 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e.118,242 Equity Shares and other QIBs were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 2,246,591 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 2,364,833 Equity Shares, which were allotted to 173 successful Applicants.

- 2	Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FII/FPC	OTHERS	Total
	QIB	7,47,389	3,32,708	1,52,536	2	72.5	6,52,175	4,80,025	23,64,833
E. Al	otment to Anchor	Investors (After Tech	nical Rejections)						

The Company, the Investor Selling Shareholders in consultation with the BRLM, have allocated 3,547,247 Equity Shares to 25 Anchor Investors (through 39 Anchor Investor Application Forms) (including domestic 12 Mutual Funds through 26 schemes) at an Anchor Investor Offer Price at ₹ 735 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB portion.

- 8	Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FII/FPI	OTHERS	Total
	Anchor	12	16,91,992	2,89,437	12	1727	15,65,818	- 2	35,47,247
The	Board of Directors of	of our Company at its m	neeting held on Se	ptember 13, 2023	has taken on reco	ord the basis of	allotment of Equity S	hares approved by	the Designated Sto

Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on September 13, 2023 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on September 14, 2023. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on September 14, 2023 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company will file the Listing application with NSE and BSE on September 15,2023.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus. INVESTORS PLEASE NOTE

## These details of the Allotment made shall be hosted on the website of Registrar to the Offer, KFin Technologies Limited at www.kfintech.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:



KFin Technologies Limited

Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad—500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222; Email: jupiterlife.ipo@kfintech.com; Investor grievance email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com; Contact person: M Murali Krishna; SEBI registration no: INR000000221



# PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

E-mail: complianceofficer.pel@piramal.com | Website: www.piramal.com | Company Secretary: Mr. Bipin Singh

Corporate Identity Number ("CIN"): L24110MH1947PLC005719 Registered Office: Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070 | Tel. No.: +91 22 3802 3000/4000 | Fax No.: +91 22 3802 3884

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 including any statutory modifications or re-enactments thereof (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 31, 2023 published on August 01, 2023 (the "Public Announcement"), the letter of offer dated August 27, 2023 (the "Letter of Offer"), Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders dated August 29, 2023 published on August 30, 2023 and Second Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders dated September 01, 2023 published on September 02, 2023. The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK
- 1.1. Piramal Enterprises Limited (the "Company") had announced a buyback of up to 1,40,00,000 (One Crore Forty Lakh only) fully paid-up equity shares of Rs. 2/- (Rupees Two only) each of the Company ("Equity Shares") from the beneficial owners of Equity Shares holding Equity Shares as on August 25, 2023 (the "Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of Rs. 1,250/- (Rupees One Thousand Two Hundred Fifty only) per Equity Share ("Buyback Price") payable in cash for an aggregate amount of up to Rs. 1,750,00,00,000 (Rupees One Thousand Seven Hundred Fifty Crore only) (such buyback of shares, the "Buyback") which is 9.15% and 6.72% of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements, of the Company as at March 31, 2023 and represented up to 5.87% of the total paid-up Equity Shares of the Company.
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- The Tendering Period for the Buyback opened on Thursday, August 31, 2023 and closed on Wednesday, September 06, 2023.
- DETAILS OF BUYBACK
- 2.1. 1,40,00,000 (One Crore Forty Lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 1,250/- (Rupees One Thousand Two Hundred Fifty only) per
- The total amount utilized in the Buyback is Rs. 1,750,00,00,000 (Rupees One Thousand Seven Hundred Fifty Crore only).
- The registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 1,21,312 valid applications for 6,22,17,004 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 4.44 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid Applications	Validly Tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	21,00,000	1,11,918	76,42,870	363.95
General Category for all other Equity Shareholders	1,19,00,000	9,394	5,45,74,134	458.61
Total	1,40,00,000	1,21,312	6,22,17,004	444.41
2.4. All valid applications were considered for the c	surpose of Acceptance in accord	ance with the Buyback Red	gulations and the Letter of Offe	er. The communication of

- acceptance/rejection has been dispatched electronically by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on Wednesday, September 13, 2023.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited and the NSE Clearing Limited ("Clearing Corporations") as applicable, on Wednesday, September 13, 2023. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If Eligible Shareholders' bank
- account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by RBI/respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders. 2.7. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on Wednesday, September 13, 2023. The
- unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders in dematerialized form was released / returned / lien removed by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's demat account, as part of the exchange payout process on Wednesday, September 13, 2023. If the Equity Shares transfer instruction was rejected in the depository system, due to any issue, then such Equity Shares were transferred to the Shareholder Broker's depository pool account for onward transfer to the relevant Eligible Shareholder. Such Eligible Shareholders are requested to ensure that their demat account is active in order to receive these unaccepted Equity Shares,
- The extinguishment of 1,40,00,000 (One Crore Forty Lakh only) Equity Shares accepted under the Buyback, comprising of all Equity Shares in dematerialized form are currently under process and shall be completed on or before Monday, September 25, 2023.
- The Company, and its respective Directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback		Post Buyback		
	- Personal de la company	No. of Shares	Amount in Rs.	No. of Shares	Amount in Rs.	
1	Authorized Share Capital	2540,00,00,000 equity shares of Rs. 2/- each*	50,80,00,00,000	2540,00,00,000 equity shares of Rs. 2/- each*	50,80,00,00,000	
		30,00,000 preference shares of Rs. 100/- each	30,00,00,000	30,00,000 preference shares of Rs. 100/- each	30,00,00,000	
		2,40,00,000 preference shares of face value of Rs. 10/- each	24,00,00,000	2,40,00,000 preference shares of face value of Rs. 10/- each	24,00,00,000	
		10,50,00,000 unclassified shares of face value of Rs. 2/- each	21,00,00,000	10,50,00,000 unclassified shares of face value of Rs. 2/- each	21,00,00,000	
		Total	51,55,00,00,000	Total	51,55,00,00,000	
2	Issued Share Capital	23,86,88,273 Equity Shares of Rs. 2/- each	47,73,76,546	22,46,88,273 Equity shares of Rs. 2/- each	44,93,76,546	
		Total	47,73,76,546	Total	44,93,76,546	
3	Subscribed and Paid-up Capital**	23,86,63,700 Equity shares of 2/- each	47,73,27,400	22,46,63,700 Equity shares of Rs. 2/- each	44,93,27,400	
		Total	47,73,27,400	Total	44,93,27,400	

\* Pursuant to the sanction of the Scheme, the authorised share capital of the Company increased on account of clubbing of authorised share capital of PHL Fininvest Private Limited with that of the Company.

\*\* There is difference of 24,573 equity shares in issued and paid-up capital of the Company since the said equity shares have been kept in abevance, under rights issue made by the Company in February, 2018.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back are as under: Sr. No. Name 

	D. Color Res	Shares accepted under Buyback	as a % of total Equity Shares bought back (%)	as a % of total Post Buyback Equity Share Capital (%)
1	East Bridge Capital Master Fund Limited	16,96,440	12.12	0.76
2	Life Insurance Corporation Of India	11,41,042	8.15	0,51
3	East Bridge Capital Master Fund I Ltd	11,11,871	7.94	0.49
4	College Retirement Equities Fund - Stock Account	8,19,190	5.85	0.36
5	Nippon Life India Trustee Ltd-A/C	6,12,278	4.37	0.27
6	TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund	4,13,081	2.95	0.18
7	BOFA Securities Europe Sa	3,95,949	2.83	0.18
8	BNP Paribas Arbitrage	3,07,781	2.20	0.14
9	Elara India Opportunities Fund Limited	2,66,501	1.90	0.12
10	Quant Mutual Fund	2,50,412	1.79	0.11
11	TATA Mutual Fund	1,84,985	1.32	0.08
12	Asian Broking Pvt Ltd	1,67,782	1.20	0.07
13	Government Pension Fund Global	1,44,317	1.03	0.06
	Total	75,11,629	53.65	3.34

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under: Pre Buyback<sup>(1)</sup> Category of Shareholder Post Buyback (2) Number of Equity % to the Pre Number of Equity % to post Buyback Shares Shares **Buyback Equity Equity Share** Share capital Promoter and Promoter Group 10.37,80,693 43.48% 10.37,80,693 46.19% Foreign Investors (Including ADRs, Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, 5,74,15,458 24.06% Foreign Nationals, and Overseas Corporate Bodies) Financial Institutions/Banks, NBFCs & Mutual Funds 2,77,11,989 11.61% 12,08,83,007 53.81% Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trusts and HUF) 4,86,21,573 20.37% Non Promoter-Non Public 11,33,987 0.48% 23,86,63,700 100.00% 22,46,63,700 100.00% Total

(1) As on record date for Buyback i.e., Friday, August 25, 2023; (2) Subject to extinguishment of 1,40,00,000 Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUYBACK

## JM FINANCIAL

7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025, India Tel.: +91 22 6630 3030 | Fax: +91 22 6630 3330 | Contact Person: Ms. Prachee Dhuri | Email: piramal.buyback2023@jmfl.com

Website: www.imfl.com | SEBI Regn. No.: INM000010361 | Corporate Identification Number: L67120MH1986PLC038784

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Piramal Enterprises Limited

attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.

Mr. Ajay G. Piramal	Mr. Anand A. Piramal	Mr. Bipin Singh
Chairman	Non-Executive Director	Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 00028116	DIN: 00286085	

Place: Mumbai

Date: September 14, 2023

## CORRIGENDUM-NOTICE TO INVESTORS

Attention of investors is drawn to the disclosure of the number of Equity Shares available for allocation to Mutual Funds appearing on page 7 (definition of Mutual Fund Portion), page 65 (5% of the Net QIB Portion) and page 367 (Basis of Allotment / allocation if respective category is oversubscribed) of the Prospectus. At such pages the number of Equity Shares should be read as 1,18,242 Equity Shares instead of 1,182,416 Equity Shares. Further, the attention of investors is also drawn to the amount disclosed at Securities Premium Account after the Offer on page 82 of the Prospectus which should be read as

₹6.967.00 million instead of ₹5.346.27 million.

The Prospectus shall be read in conjunction with this Corrigendum (the "Corrigendum"). The information in this Corrigendum supersedes the information provided in the Prospectus to the extent inconsistent with the information in the Prospectus. The Prospectus stands amended to the extent stated hereinabove.

For JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Suma Upparatti Company Secretary & Compliance Officer

Equity Shares accepted

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LIMITED.

JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LIMITED has filed the Prospectus dated September 11, 2023 with RoC and SEBI. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and is available on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, Nuvama Wealth Management Limited (formerly known as Edelweiss Securities Limited) at www.nuvama.com and JM Financial Limited at www.jmfl.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled "Risk Factors" of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision instead shall rely on Red Herring Prospectus. Specific

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States. CONCEPT

New Delhi

financialexp.epapr.in

# जनसत्ता

#### क्लासीफाइड

सार्वजनिक सचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि में मविकल श्री किशन कमार और उनकी पढ़ श्रीमती चंपा रानी निवासी 473 ग्राउंड फ्लोर डॉक्ट मुखर्जी नगर दिल्ली 110009 अस्थाई निवासी 2/ सेकेंड फ्लोर इंदिरा विकास कॉलोनी दिल्ल 110009 ने अपने पुत्र श्री पुनित अरोड़ा व उसक पत्नी प्रेरणा मेहता को उनके व्यवहार से तंग आक अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल क उनसे पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिया था और सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए थे अब उनके पत्र पनित अरोडा का अपनी पत्नी श्रीमती प्रेरण मेहता से तलाक हो गया है । अब पुनित अरोड़ा का व्यवहार अच्छा हो गया है सेवा भाव रखते ह और झगड़ा नहीं करते हैं। अपने माता पिता वे साथ रहते हैं अतः मेरे मुवक्किल पूर्व प्रकाशि नोटिस को वापस लेते हैं । पुनित अरोड़ा को उनके माता पिता के समस्त चल अचल संपत्ति में पर अधिकार रहेगा लेकिन उसकी पत्नी / तलाकशु प्रेरणा मेहता एवं उनके बेटे का कोई अधिकार मे मवक्किल की किसी भी जयदाद चल अचल -नहीं रहेगा एवं उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है । कोर्ड भी व्यक्ति का भविष्य में पेरणा मेहत

सुधीर कुमार सिंह (अधिवक्ता बार रूम नं. 3. जगदेव हॉल सिविल विंग. तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

से किसी भी प्रकार का लेनदेन की जिम्मेवारी मेरे

मवक्किल पर नहीं होगी।

### PUBLIC NOTICE

t Sh. Raj Kumar, aged about 76 yrs S/o. Sh. Shish Ram, Residence and owner of Built-up Property H.No. 101-D. Old Pole No. 26, New Pole No. NJFZ-728, Goyla Khurd Village, Neur Chopal, South West, Delhi-110071 and also owner of built-up House No. H, Near Pole No. 26/V, Goyla Khurd Village, New Delhi-110043 and also Owner of built-up Plot No. 18, Khasra No. 5/21, 12/1, 15/17, Qutub Vihar Phase-1, Near Stand, South West Delhi-110071 and also owner of built-up Plot no. 12, Khasra No. 5/21, 12/1, 15/17, Qutub Vihar Phase-1 PP No. NJF, E-677, Najafgarh, Near MCD School, South West Delhi-110071 and also owner of built-up Plot no. 12, Khasra No. 5/21, 12/1, 15/17, Qutub Vihar Phase-1 PP No. NJF, E-677, Najafgarh, Near MCD School, South West Delhi-110071 and also owner of built-up Sh. Shish Ram. Residence and own Najafgarh, Near MCD School, South We-Delhi-110071 and also owner of built-u Phase-1, Near Stand, South West Delhi 110071.

By virtue of the present public notice, my client has debarred, disinherated, disowned his son Sh. Amar Jeet, aged about 43 yrs, & Sh. Inder Jeet, aged about 43 yrs, from his all movable and immovable properties as mentioned. 58 yrs, from his all movible and immovable properties as mentioned above, Bank Accounts / FDR's / Shares Bank Lockers, asbothareout of control and ot cooperative with my client for the last corethan 2 years. My clienthas no concer ith Sh. Amar Jeet and Sh. Inder Jeet, an y client is not responsible for the act done them and if anybody dealing with them hall deal at their own cost, risk an onsequences. My client is also initiatin ppropriateCourtofLaw/Forum JyotiGandhi (Advocate) Ch. No. 713, Lawyer's Chamber Block Dwarka Court Complex, New Delhi-75

#### PUBLIC NOTICE

is general information that Madhu Malti Bisht w/o Late Shr Dinesh Kumar Bisht R/o DDA MIG Flat no. 65A Ground floor, Pocket I. Dilshad Garden Delhi 110095 have lost my original property Demand-Cum-Allottment letter, possession letter, site possession slip, NOC for water & electricity connection slip of property vide no. DDA MIG Flat no. 65A, Ground floor, Pocket Dilshad Garden New Delhi 110095 An FIR to this effect has been lodge vide, LR No.809130/2023 or dated 22/08/2023 in police station. If any person/institution/company claim any rights, Interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address/phone number within 15 days from the date of this publication of this notice. The person claiming any rights interest, objection is with respect to this property can personally nform or write to Dy. Director LAB) MIG -Housing or director (Housing) -II D block 3rd floor Vikas sadan INA , NEW DELHI.

PUBLIC NOTICE My client ICICI Bank Ltd. Dwarka, New Delhi, is in the process of advancing a loan to Mr. Ankur Verma for purchase of First Floor without roof rights of Property No. F-81, (288.1/3 Sq. Yds.), Kirti Nagar, New Delhi from (1) Mr. Jatinder Jolly (2) Mr. Suman Jolly (3) Mr. Rajinder Kumar Uberoi who have represented that they are the absolute owners of the said Property. Original title documents prior to 1995 have been lost and certified copies of the same are available. I anybody, person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property on the basis of lost documents or otherwise, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice. otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off No claim or objection shall be entertained thereafter and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging the said property.

#### Vishal Chopra, Advocate **GNA & Associates** D-28. Jangoura Extension. New Delhi-110014.

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that our client intends to purchase One Golf Home Unit No.16, FAIRWAY DRIVE having super area of approx measuring 239.461 sq mts, constructed on piece and parcel of land admeasuring 202.3424 sq.mts, and Vender is absolute owner and in possession of land Mutation No. 492, Khewat/Khata No.36/37.Rectangle No.3, Killa No. 18/2 ,measuring Kanal 01, Marla13 to the extent of 8/33 share measuring o kanal 8 Marla total admeasuring o Kanal 8 Marla, situated in the revenue estate of village Dadu, Tehsil Tauru, District Mewat (Haryana). Any person having any objection, right, title, share, interest and/or any claim against and/or in respect of the Said Land, or any part or portion thereof or demand of any nature whatsoever or otherwise howsoever are hereby requested to inform the same in writing along with supporting documents to the undersigned, within a period of 10 (ten) days from the date of the publication hereof, and satisfy the undersigned about their claim, failing which, the claim/s, if any, of such person/s shall be considered to have been waived, released. relinquished and/or abandoned.

Adv. Subodh Vats For Progressive Law Group 9/14, Third Floor, East Patel Nagar, Delhi 110008. Mob.: 9811122828

#### पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank क ...the name you can BANK upon! ......भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

नियम - 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत पंजाब नेशनल बँक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / बंधककर्ता / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना / प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं 🖊 गारंटरों उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों /बंधककर्ता/ गारंटरों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। कर्जदारों /बंधककर्ता / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब नेशनल बैंक** के प्रभार वास्ते बकाया राशि और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। यदि उधारकर्ता / गारंटर प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्ति को निर्धारित तरीके से बेचा जाएगा।

N P	ъ.	कर्जदार/सह-कर्जदार/	बंधक सम्पत्तियों का	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (धारा	कब्जा सूचना
	Hi.	बंधककर्ताओं/गारंटरों का नाम	विवरण	13(2) के तहत नोटिस में उल्लेख के अनुसार)	की तारीख
	1	गाजियाबाद (यू.पी.) श्री गरविंदर जीटे	जन विन	रू 20 61 079 79 दिसांक 31 05 2023 तक	

### KRBL LIMITED CIN: L01111DL1993PLC052845

Registered Office: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 006; Phone: 011-23968328; Corporate Office: C-32, 5th & 6th Floor, Sector-62, Noida, U.P.-201301; Phone: 120-4060300:

E-mail: investor@krblindia.com; Website: www.krblrice.com Contact Person: Ms. Jyoti Verma, Company Secretary & Compliance Officer

OF EQUITY SHARES OF KRBL LIMITED This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24 (vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations")

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS

This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 11, 2023, published on August 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated August 26, 2023 ("Letter of Offer"). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

#### THE BUYBACK

regarding completion of the Buyback

- 1.1 KRBL Limited ("Company") had announced the Buyback of upto 65,00,000 (Sixty Five lakh) fully paid-up equity shares of ₹1/- (Rupee One only) each ("Equity Shares"), representing approximately 2.76% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company as at March 31, 2023, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. Friday, August 25, 2023 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹500/- (Rupees Five Hundred only) per Equity Share ("Buyback Price") for an amount aggregating up to ₹325 crores (Rupees Three Hundred and Twenty Five Crores only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 6.94% and 6.96% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited financial statements of the Company as on March 31, 2023, on a standalone and consolidated basis, respectively.
- 1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular SEBI/ HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023, and/or such other circulars or notifications or amendments as were applicable, issued by SEBI.
- 1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Thursday, August 31, 2023 and closed on Wednesday, September 6, 2023.
- 2. DETAILS OF BUYBACK
- 2.1 65,00,000 (Sixty Five lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹500/- (Rupees Five Hundred only) per Equity Share.
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹325 crores (Rupees Three Hundred and Twenty Five Crores only) excluding Transaction Costs.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Alankit Assignments Limited ("Registrar"), considered 34,149 valid bids for 3,40,34,710 (Three Crore Forty Lakh Thirty Four Thousand Seven Hundred and Ten only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 5.24 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	9,75,000	31,347	20,73,765	212.69
2	General Category for all other Equity Shareholders	55,25,000	2,802	3,19,60,945	578.48
	Total	65,00,000	34,149	3,40,34,710	523.61

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was dispatched by the Registrar through email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company and the Depositories) on September 13, 2023. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on September 14, 2023.
- 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on September 13, 2023. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on September 13, 2023. The unaccepted Equity Shares were returned to the respective Seller Member / custodians by the Clearing Corporation on September 13, 2023. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback
- 2.7 The extinguishment of 65,00,000 (Sixty Five lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before September 25, 2023.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1 The capital structure of the Company, pre-Buyback (i.e., as on the Record Date) and post-Buyback, is as under:

Sr.	Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
No.		No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Crore)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹ Crore)
1.	Authorised Share Capital	30,00,00,000 Equity Shares of ₹1/- each	30.00	30,00,00,000 Equity Shares of ₹1/- each	30.00
2.	Issued and Subscribed Share Capital	23,62,44,892 issued and subscribed Equity Shares of ₹1/- each	23.62	22,97,44,892 issued and subscribed Equity Shares of ₹1/- each	22.97
3.	Fully Paid-Up Share Capital	23,53,89,892 fully paid-up Equity Shares of ₹1/- each	23.54	22,88,89,892 fully paid-up Equity Shares of ₹1/- each	22.89

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares

3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)*
1.	ANIL MITTAL FAMILY TRUST	10,65,702	16.40	0.47
2.	ARUN KUMAR GUPTA FAMILY TRUST	10,34,994	15.92	0.45
3.	ANOOP KUMAR GUPTA FAMILY TRUST	9,52,645	14.66	0.42
4.	ANIL KUMAR GOEL	4,40,248	6.77	0.19
5.	SOM NATH AGGARWAL	2,31,977	3.57	0.10
6.	SEEMA GOEL	2,07,366	3.19	0.09
7.	ANOOP KUMAR GUPTA HUF	1,79,005	2.75	0.08
8.	ARUN KUMAR GUPTA HUF	1,18,925	1.83	0.05
9.	ANIL KUMAR MITTAL HUF	88,275	1.36	0.04
10.	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	77,085	1.19	0.03

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, (i.e., as on the Record Date i.e. August 25, 2023) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback	
	Number of Shares	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding pos Buyback*
Promoters and Promoter Group	14,11,81,796	59.98	13,77,19,838	60.17
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	3,41,89,894	14.52		39.83
Indian Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	1,46,38,445	6.22	9,11,70,054	
Public including other Bodies Corporate	4,53,79,757	19.28		
Total	23,53,89,892	100.00	22,88,89,892	100.00

\* Subject to extinguishment of 65,00,000 Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUYBACK

# **Elara**Capital

Elara Capital (India) Private Limited One International Center, Tower 3, 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West, Mumbai - 400013 Address:

+91 22 6164 8599 +91 22 6164 8589 Fax: Ms. Astha Daga Contact Person: krbl.buyback@elaracapital.com Email: Website: www.elaracapital.com SEBI Registration Number: INM000011104 Validity Period: Permanent

U65993MH2006PTC164708 CIN: DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of KRBL Limited

Sdr-	Sd/-	Sd/-
Anil Kumar Mittal Chairman & Managing Director DIN: 00030100	Anoop Kumar Gupta Joint Managing Director DIN: 00030160	Jyoti Verma Company Secretary & Compliance Office M. No.: F-7210

Date: September 14, 2023 Place: Noida, Uttar Pradesh

# Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class Ludhiana Kotak Mahindra Bank

Vs. Iyyappan P. & Aur CNR NO: PBLD03-058147-2020

COMA/ 10582/2020 Notice To: 1. Iyyappan P. R/o D. No 11-11-58 Bharathi Nagar P.n Patty Mettur Salem-636402 (Tamil Nadu) 2. Raja G. @ G. Raja R/o 8-65c,

Bharathi Nagar, P.n. Patty Mettur Dam, Salem- 636402 ( Tamil Nadu) In above titled case, the defendant (s)/

respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant (s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 18-10-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

#### अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

### धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त इकलाख पुत्र श्री मोहम्मद इनुल उर्फ ऐनुल, निवासी- हरिजन बस्ती, बख्तावरपुर, अलीपुर, दिल्ली ने मकदमा संख्या 1349/21 घारा 33/38 Delhi Excise Act अन्तर्गत थाना निहाल विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त इकलाख मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियक्त इकलाख फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि मुकदमा संख्या 1349/21 धारा 33/38 Delhi Excise Act अन्तर्गत थाना निहाल विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त इकलाख से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 16.10.2024 को या इससे पहले हाजिर हों। श्री पी. भार्गव

DP/10315/OD/2023 (Court Matter)

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

महानगर दंडाधिकारी-03. कमरा संख्या-292 द्वितीय तल तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

ADITYA BIRLA PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पर्व), मुंबई—400063, महाराष्ट्र ई—नीलामी बिक्री सूचना

िवित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमीण तथा - प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की नीलामी बिक्री सूचना,

जबिक आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ता र अतिरिक्त शुल्क और लागत के साथ नीचे उल्लिखित देय राशि के लिए सुरक्षित लेनदार के सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड को देय ऋणों की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति की ई–नीलामी "जैसा है जहां है" "जैसा है जो है" और "जो कुछ है" के आधार पर आयोजित की जाएगी।

सं सह—उधारकर्ताओं का नाम  का विवरण और ककों का प्रकार  1. मैससी जीवन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इसके मिलिक श्री विक्रम बेदी 2. श्री विक्रम बेदी 3. श्री सिद्धार्थ बेदी, एस श्री   अलका बेदी 4. सुश्री अलका बेदी   एस श्री   अलका बेदी 4. सुश्री अलका बेदी   एस श्री   अल्का बेदी 5. श्री विक्रम बेदी   एस श्री   अलका बेदी 5. श्री सिद्धार्थ बेदी, एस श्री   अल्का बेदी 6. सुश्री अलका बेदी   एस श्री   अलका बेदी 7. स्ति के माध्यम से। ऋण्य खाता नंबर 8 कह्म_/एच. श्री विक्रम बेदी 6. सुश्री अलका बेदी   एस श्री   अल्का बेदी   अच्च संपत्ति के साध्यम से। ऋण्य खाता नंबर 8 क्षिमांबद्ध   उसके मालिक सतीश चंदर सचदेवा के माध्यम से। अच्च संपत्ति   अच्च संपत्त		समयः 30.09.2023  को सुबह 11:00 II धरोहर जमा (ईएमडी) प्राप्त करने			
इसके मालिक श्री विक्रम बेदी   एम/डी		का विवरण और		(ईएमडी) (रु में )	मांग सूचना दिनां और कुल राशि (रु.में)
पुत्र जसवन्त राय सचदेवा 2. सतीश सचदेवा डेंटल क्लीनिक (इसके मालिक सतीश चंदर सचदेवा के माध्यम से) 3. शोमा सचदेवा डी / डब्ल्यू / ओ. गणपत बाबूराव पवार 4. सोहम सचदेवा, पुत्र —सतीश चंद्र सचदेवा ऋण खाता. नंबर: ABFLNDDSB0000102857  1. श्री नितिन नारग पुत्र श्री अमर नाष्ट्र जी २. ओम साई पैकर्स प्रस्तावक श्री नितिन नारग 3. सुश्री कृष्णा रानी 2. ओम साई पैकर्स प्रस्तावक श्री नितिन नारग 3. सुश्री कृष्णा रानी पुत्री हरीश कुमार	इसके मालिक श्री विक्रम बेदी  2. श्री विक्रम बेदी , एस/डी/ डब्ल्यू/एच. श्री हरभजन बेदी  3. श्री सिद्धार्थ बेदी, एस/डी/डब्ल्यू/एच. श्री विक्रम बेदी  4. सुश्री अलका बेदी , एस/डी/ डब्ल्यू/एच. श्री विक्रम बेदी के माध्यम से। ऋण खाता नंबरः BFLNDDSB0000131163 और	9903, खसरा नंबर 354 और 355, ग्राम बाबरपुर, गली नंबर 3—जे, वेस्ट गोरख पार्क, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली—110 032 स्थित सम्पत्ति के सभी टुकड़े एवं अंश , और सीमाबद्धः —पूर्वः 10 फीट गली; —पश्चिम — अन्य संपत्ति; उत्तर— अन्य संपत्ति; दक्षिण —	(केवल सत्तर लाख नब्बे	(केवल सात लाख नौ हजार रुपये) 50,000 / – (केवल पचास	17.06.2022 16.06.2022 तक रु 89,65,088 / - (रुपए नवासी लाख पैंसठ हजा और अट्ठासी मान्न देय
नाथ जी   मकान नंबर 19 / 15 के वह सभी टुकड़े और (रु. सोलह   (एक लाख बासठ   2. ओम साई पैकर्स   अंश , वाका जवाहर नगर, तहसील कैंप लाख बीस   हजार रूपये मात्र)   प्रस्तावक श्री नितिन नारग   पानीपत, एम.सी. तहसील और जिला के हजार मात्र)   25,000 / −   3. सुश्री कृष्णा रानी   अंदर, पानीपत, हिरयाणा−132103,और   (पच्चीस हजार पुत्री हिरीश कुमार   फपये मात्र)   रूपये मात्र)	पुत्र जसवन्त राय सचदेवा  2. सतीश सचदेवा डेंटल क्लीनिक (इसके मालिक सतीश चंदर सचदेवा के माध्यम से)  3. शोभा सचदेवा डी / डब्ल्यू / ओ. गणपत बाबूराव पवार  4. सोहम सचदेवा, पुत्र —सतीश चंद्र सचदेवा ऋण खाता. नंबरः ABFLNDDSB0000076017, ABFLNDDSB 0000076066,	अधिसूचना दिनांक 14.09.1968 के तहत उप रिजस्ट्रार दिल्ली, उप जिला — 1, दिल्ली की सीमा के भीतर आने वाले उक्त दुकान क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के लीज होल्ड अधिकार के साथ दुकान नं. 8, भूतल , एमसीडी बिल्डिंग, शक्ति नगर चौक, दिल्ली—110007 वाली संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश । इस प्रकार घिरा हुआ:——पूर्व में: सड़क; —पश्चिम द्वारा: शौचालय; —उत्तर द्वारा: दुकान नंबर 7; —दक्षिण : शॉप नंबर 9, कुल	(रू. उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र)	(केवल छह लाख पंचानबे हजार रुपये) 25,000 / – (केवल पच्चीस	17.06.2022 15.06.2022 तक रु.1,04,88,462 / (रु. एक करोड़ चार लाख अट्ठार हजार चार सौ बासठ मात्र) देय
<b>ऋण खाता सं</b> :	नाथ जी 2. ओम साई पैकर्स प्रस्तावक श्री नितिन नारग 3. सुश्री कृष्णा रानी 3 पुत्री हरीश कुमार 4. सुश्री विमल रानी पुत्री श्री अमर नाथ ऋण खाता सं: ABFLPNTDSB0000073248 और	मकान नंबर 19 / 15 के वह सभी टुकड़े और अंश , वाका जवाहर नगर, तहसील केंप पानीपत, एम.सी. तहसील और जिला के अंदर, पानीपत, हरियाणा—132103,और सीमाबद्धः — पूर्व द्वाराः अशोक कुमार 54 फीट; पश्चिमः जगन नाथ 53.7 फीट; उत्तर की ओरः अन्य संपत्ति 6.7+5+6.1 फीट;	(रु. सोलह लाख बीस हजार मात्र)	(एक लाख बासठ हजार रूपये मात्र) 25,000 / – (पच्चीस हजार	17.02.2022 10.02.2022 तक रु 28,09,793.2 (रुपये अड्डाईस लाख नौ हजार सात सौ तिरानव और बाईस पैसे मात्र) देय

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड/ सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यार https://personalfinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act.aspx पर दिए गए लिंक को देखें। संपर्क नंबरः आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी (1) श्री मुकेश कुमार चौधरी (mukesh.choudhary@adityabirlacapital.com)

मोबाइल नं. 9343976618 / 9004266300 आप निकटतम शाखा में भी जा सकते हैं या आदित्य बिडला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

1) मोहित शर्माः mohit.Sharma15@adityabiriacapital.com —मोबाइल नं. 9873913955,3) श्री

(vedprakash.mishra@adityabirlacapital.com) मोबाइल नं.—9004026790

स्थानः नई दिल्ली /पानीपत दिनांकः 15.09.2023

प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

वेदप्रकाश मिश्रा

फार्म बी सार्वजनिक उदघोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, २०१६ का विनियम १२) यूरोटस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

अ. क्र.	विवरण	तपशिल
1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	यूरोटस इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड
2	कॉपॉरेट देनदार के गठन की तिथि	23 फरवरी 2011
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीद्भत है	कंपनी पंजीयक, दिल्ली पंजीकरण सं. 214733
4	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान सं.	CIN: U70101DL2011PLC214733
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीद्भत कार्यालय और का पता	क. पंजीद्भत कार्यालयः बेसमेंट, ए-103, रोड नं. 4, महिपालपुर प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037, भारत ख. प्लांट का पताः एमआईडीसी, एडिशनल सिन्नर, मुगलगांव-422112, महाराष्ट्र, भारत
6	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि	12 सितम्बर, 2023
7	कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन प्रारंभ तिथि	12 सितम्बर, 2023
	448 x 1 1450 m 4 15 4 100 4 17 4 15 6 15 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(एनसीएलटी आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2023)
8	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नामः श्री हुजेफा फाखरी सितबखान आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115 एसाइनमेंट के लिए अधिद्भत 23 दिसम्बर 2023 तक
9	बोर्ड के साथ पंजीद्भत अनुसार परिसमापक का पता एवं ई–मेल	परिसमापक का पंजीद्धत पता: 1012, दालामल टॉवर, फ्री प्रेस जरनल रोड, 211, नरीमन प्याइंट, मुंबई-400 021, महाराष्ट्र, भारत पंजीद्धत ई-मेल पता: huzefa.sitabkhan@gmail.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किये जाने वाला पता एवं ई-मेल	पत्राचार के लिए पता: थिंक कैपिटल इन्सॉलवेंसी प्रोफेशनल एलएलपी 1011-1012, दालामत टॉवर, फ्री प्रेस जरनल रोड, 211, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021,

11 दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2023 एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), पीठ-ट, नई दिल्ली ने १२ सितम्बर, २०२३ को युरोटस इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

पत्राचार के लिए ई-मेल आईडी: cirp.eurotas@gmail.com

महाराष्ट्र, भारत

मैसर्स युरोटस इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड के शेयरधारकों को एतदद्वारा मद १० में वर्णित पते पर १२ अक्टबर, २०२३ तक या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सचित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते हैं।

निम्नानुसार निर्धारित किए गए अनुसार शपथपत्र और दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में दावों के

प्रमाण जमा किये जाने हैं: फार्म सी - कामगार एवं कर्मचारी छोडकर परिचालन लेनदार द्वारा दावों के लिए

फार्म डी - वित्तीय लेनदार दारा दावों के लिए

तिथि: 15 सितम्बर, 2023

स्थानः मुंबई

फार्म ई - कामगार एवं कर्मचारी द्वारा दावों के लिए फार्म एफ - कामगार एवं कर्मचारी के अधिद्रत प्रतिनिधियों दारा दावों के लिए

फार्म जी - अन्य स्टेकहोल्डर द्वारा दावों के लिए

उपरोक्त वर्णित निर्धारित फार्म भारतीय दिवला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की वेबसाइट www.ibbi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। दावों के झठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

यदि कोई स्टेकहोल्डर परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपने दाये प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे स्टेकहोल्डर द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, २०१६ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान धारा ३८ के तहत प्रस्तुत माना जाएगा।

> हस्ता/-हजेफा फाखरी सितबखान

परिसमापक

IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115 एसाइनमेंट के लिए अधिद्वत 23 दिसम्बर 2023 तक दिनांक: 31.05.20223

www.readwhere.com